



SURAJ PRODUCTS LIMITED

Registered Office & Works :

CIN : L26942OR1991PLC002865

Vill. : Barpali, P.O. : Kesramal, Rajgangpur, Dist. : Sundargarh, Odisha, India, PIN : 770017

Tel : +91-94370 49074, e-mail : info@surajproducts.com, suproduct@gmail.com

www.surajproducts.com

Dated: June 04, 2021

The Secretary
Bombay Stock Exchange Limited
(Department of Corporate Services)
Floor 25, P.J.Tower, Dalal Street
Mumbai – 400001

Dear Sir,

Subject: Submission under Regulation 47 of SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

We are enclosing herewith copies of newspaper cutting published pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as detailed herewith:

Paper cuttings of "Business Standard" (English & Hindi Newspaper) published on June 04, 2021 and Utkal Mail (Oriya News Paper) published on June 04, 2021 regarding publication of Notice of Board Meeting to held on Saturday the 12th day of June, 2021 to consider and approve the Standalone Audited Financial Results of the Company, for the quarter & year ended March 31, 2021. Copy of newspaper cuttings in this connection are attached for your reference.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours Faithfully
For Suraj Products Limited


A.N. Khatua

Company Secretary



Encl. as above

Copy to:

The Secretary
The Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyons Range, Kolkata – 700001

Fundamentals strong for Motherhood Sumi

Further margin gains could be a key trigger for the stock


RAM PRASAD SAHU
Mumbai, 3 June



SOLID FOUNDATION

	FY20	FY21	FY22E	FY23E
Net sales (₹ cr)	63,536	60,194	77,615	86,528
% growth	0.02	-5.26	28.94	11.48
Operating profit (₹ cr)	5,201	4,970	8,862	10,725
Margin (%)	8.19	8.26	11.42	12.39
Net profit (₹ cr)	1,170	1,049	2,747	3,697
% growth	-27.46	-10.34	161.87	34.58

CASH FLOWS TO IMPROVE



E: Estimates; consolidated financials

Source: Motilal Oswal Research

However, longer pass through contracts and higher copper content in the truck business could lead to near-term pressures as was the case with its subsidiary PKC, which saw profitability pressures despite a 21 per cent rise in revenues.

Analysts at JM Financial say SMRPBV reported strong margins for the second consecutive quarter, driven by sustained improvements in performance of greenfield facilities owing to continued focus on cost reduction and efficiency enhancements. This coupled with no major greenfield facility in the near term is expected to translate into an improvement in cash flows and falling debt levels. Consolidated net debt is down from ₹7992 crore at the end of FY19 to ₹4,820 crore in FY21. Most analysts expect the return on equity (10 per cent at pres-

ent) and net profit growth to jump 3-4 times over the next four years.

The Street is positive about the execution capabilities, healthy order book, improving margins and growth expectations from a cyclical upturn, but some brokerages have downgraded it citing valuations concerns. Despite a beat on estimates, Edelweiss has downgraded the stock given the sharp rally in its price. While management continues to execute well, the brokerage believes the Street's extremely high expectations (reflected in valuations) leave little room for disappointment.

At the current price, the stock is trading at 21 times its FY23 estimates as against its historical average of 20 times. Further corrections could be used as an opportunity by investors to buy the stock.

Cloud lifts over cryptos, but volatility remains

Start with small investments, but exclude from portfolios aimed at key financial goals

BINDISHA SARANG

Last week, the Reserve Bank of India (RBI) asked banks not to cite its 2018 order as a reason for denying services to customers who deal in cryptocurrencies. After this, both the cryptocurrency industry and investors heaved a sigh of relief. It appears that India may not emulate China and deny the industry access to banking services.

Perilous existence

Cryptocurrency exchanges in India have lived under the threat of closure for many years. First, the central bank issued a circular in April 2018 banning banks and other entities regulated by it from providing services to the exchanges. As a result, investing ground to a halt. In April 2020, however, the Supreme Court lifted the ban. Nonetheless, the regulatory uncertainty lingered owing to reports that the government may pass legislation to ban cryptocurrencies. Finance Minister Nirmala Sitharaman's statement in March that the government would take a calibrated approach brought some relief. In May, however, crypto exchanges once again began to complain of banks denying services. China's crackdown on the industry also stoked fears.

EXPERTS' TAKE ON CRYPTOCURRENCY TAXATION



RBI's latest instruction has bolstered the view that Indian investors may be allowed to invest in cryptocurrencies. Says Sumit Gupta, chief executive officer (CEO) and co-founder of CoinDCX: "RBI's clarification is a welcome move for both the crypto investor community and crypto exchanges operating in the country."

To allay the government's apprehensions that crypto investments could become a conduit for illegal activities, the industry has decided to undertake self-regulation. The Blockchain and Crypto Assets Council (BACC), a part of the Internet and Mobile Association of India (IAMAI), is setting up a board to oversee the

Income or gains from the sale of cryptocurrencies will be taxable, though specific guidelines from the income-tax department are awaited, say experts
Cryptocurrencies may be treated as a long-term capital asset when held for more than three years, with taxation at 20 per cent rate along with indexation benefit
When held for less than three years, they are likely to be taxed at applicable slab rates
Tax treatment may be different for those who trade frequently (it may then be treated as business income)

Source: ClearTax

implementation of a self-regulatory code of conduct for member exchanges. The code includes voluntary compliance with anti-money laundering, know your customer (KYC) regulations, company and taxation laws, and combating of terrorism financing.

Volatility remains high

While the regulatory cloud hanging over cryptocurrencies has dissipated for now, volatility remains a concern. Bitcoin traded at around \$11,200 in end-July 2020. From there it rose to \$63,300 by mid-April 2021, and then fell sharply to around \$30,000 in mid-May.

Says Avinash Shekhar, co-CEO, ZebPay: "Cryptocurrencies are a new asset class and investors should treat it as an investment in a

start-up—as a high-risk high-reward category. As in any new asset class, there will be price volatility in the short term." He adds that it may become a more stable asset class as it matures.

Every retail investor may not, however, be able to handle such high volatility.

What should you do?


Most financial planners (FPs) remain sceptical about cryptocurrency, one reason being that it is not a regulated asset class. "I would advise retail investors to avoid any asset class that is not tightly regulated," says Vishal Dhawan, chief financial planner, Plan Ahead Wealth Advisors.

FPs believe cryptos can't be made a part of regular portfolios. Says Pankaj Mathpal, managing director and CEO, Optima Money Managers: "They can't be a part of portfolios aimed at achieving goals like children's education, retirement, etc." He says investors can at best set aside some money, which they can afford to lose, for investing in cryptocurrencies, provided they are clear they are speculating with this money, just as one would on a lottery ticket.

Adds M Barve, founder, MB Wealth Financial Solution: "If you have checked all boxes of financial management and have some cash left which you can write off mentally, you may invest in cryptocurrencies but for the long term."

Oil steady after sharp rise on improved demand

BRENT CRUDE SPOT (\$/BBL)



REUTERS

London, 3 June

Oil prices were little changed on Thursday after strong gains in the previous two sessions on expectations for surging fuel demand later this year while major producers maintain supply discipline. Brent crude futures were up 12

cents, or 0.17 per cent, at \$71.47 a barrel by 0952 GMT after touching their highest since September 2019 at \$71.99. The international benchmark had gained 1.6 per cent on Wednesday.

US West Texas Intermediate crude futures rose 8 cents, or 0.12 per cent, at \$68.91. Prices rose as high as \$69.40, the strongest since

October 2018, after gaining 1.5 per cent in the previous session.

The consensus among market forecasters, including the Organization of the Petroleum Exporting Countries (Opec) and its allies within the wider Opec+ group of producers, is that oil demand will exceed supply in the second half of 2021.

Haldyn Glass Limited
(CIN: L51909GJ1981PLC015522)
Registered Office: Village Gavesad, Taluka Padra, Dist. Vadodra-Gujarat - 391 430, Tel: 02662 242339, Fax: 02662 245081, E-mail: baroda@haldynglass.com, Web: www.haldynglass.com

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Friday, June 11, 2021**, at Mumbai, *inter-alia* to consider and approve the Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the quarter and year ended March 31, 2021 and to consider recommendation of dividend, if any.

This Notice is also available on the website of the Company at www.haldynglass.com and on the website of the Stock Exchange, BSE Limited at www.bseindia.com

For Haldyn Glass Limited
Dhruv Mehta
Company Secretary
Place : Mumbai
Date : June 03, 2021

PUBLIC NOTICE
This is to inform the General Public that Bank of Baroda, Nagdevi Street Branch, 181 Nagdevi Street, Mumbai 400003 intends to accept/mortgage the undermentioned property i.e. Flat No. 1704, on the 02nd Floor, in the Building No. 31, in the Society known as "Bandra Vinay Co-operative Housing Society Limited", Adm. 220 Sq.Ft. (Carpet Area). Situated at Khemnagar, Bandra East, Mumbai- 400051, Village: Bandra, Taluka: Andheri, Dist: Mumbai Suburban, bearing Survey No. 341, CTS No. 607, belonging to Mrs. Supriya Sunil Devlekar. In case anyone has got any right/ title / interest/ claims over the undermentioned property, they are advised to approach the Bank within 07 days along with necessary proof to substantiate their claim.

If no response is received within 07 days, it is presumed that the property is free of any charge / claims / encumbrances and bank shall proceed with the mortgage.

Details of Property:
Flat No. 1704, on the 02nd Floor, in the Building No. 31, in the Society known as "Bandra Vinay Co-operative Housing Society Limited", Adm. 220 Sq.Ft. (Carpet Area). Situated at Khemnagar, Bandra East, Mumbai- 400051, Village: Bandra, Taluka: Andheri, Dist: Mumbai Suburban, bearing Survey No. 341, CTS No. 607.

Adv. V. B. Tiwari & Company
Office No. 16-A, 1st Floor, Islam Building, Vee Nariman Road, Opp: Akbarally's, Fort Mumbai.
022-2285 2893/9892284146.

PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given that the following Share Certificates for 110 Equity Shares of Rs. 10/- (Rupees ten only) each with Folio No. 02995357 of **Reliance Industries Limited**, having its registered office at Maker Chambers IV, 3rd Floor, 222 Nariman Point, Mumbai, Maharashtra- 400021 registered in the name of **PARESH MANHARLAL PAREKH and SATISH M PAREKH** have been lost. **PARESH MANHARLAL PAREKH and SATISH MANHARLAL PAREKH** have applied to the company for issue duplicate certificate. Any person who has any claim in respect of the said shares certificate should lodge such claim with the company within 15 days of the publication of this notice.

Folio	Certificate No.	Dist. From	Dist. To	No. of Shares
029953571	16754730	468442545	468442594	50
	16754731	468442595	468442644	50
	16754732	468442645	468442654	10

Place : Mumbai
Date : 4/6/2021

Sd/-
PARESH MANHARLAL PAREKH
SATISH MANHARLAL PAREKH

PUBLIC NOTICE
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN
This is to inform the General Public that following share certificate of **ALKYL MINES CHEMICALS LIMITED** having its Registered Office at 401-407, Plot No.10, Nirman Vyapar Kendra, Sector-17, Vashi, Navi Mumbai, Maharashtra - 400 703 registered in the name of the following Shareholder/s have been lost by them.

Sr. No.	Name of the Holder	Folio No.	Certificate No./s	Distinctive Number/s	No. of Shares
1	RAVINDRA C. TOLAT JAYABALA R. TOLAT	R00296	2363	20161219 - 20161224	06

The public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above referred share certificates.

Any person who has any claim in respect of the said share certificate/s should lodge such claim with the Company or its Registrar and Transfer Agents **Link Intime India Private Limited** 247 Park, C-101, 1st Floor, L. B. S. Marg, Vikroli (W), Mumbai - 400 083 within 15 days of publication of this notice after which no claim will be entertained and the Company shall proceed to issue Duplicate Share Certificate/s

Place : Mumbai
Date : 04.06.2021

Sd/-
Jayabala Ravindra Tolat
[Name of Legal Claimant]

PUBLIC NOTICE
Shri Kuldip Kumar Chuniyal Gupta member of Highland Park B Co-operative Housing Ltd, Having address at B-1, Highland Park, Guru Govind Singh Road, Mulund Colony, Mulund (west), Mumbai - 400 082 and holding flat / tenement no. B1-601 in the building of the society, died on 19.06.2019 without making any nomination.

The society hereby invites claims or objections from the heir or heirs or other claimants / objector or objectors to the transfer of the said shares and interest of the deceased member in the capital / property of the society within a period of 15 days from the publications of this notice, with copies of such documents and other proofs in support of his / her / their claims/ objections for transfer of shares and interest of the deceased member in the capital / property of the society. If no claims / objections are received within the period prescribed above, the society shall be free to deal with the shares and interest of the deceased member in the capital / property of the society in such manner as is provided under the Bye-laws of the society. The claims / Objections, if any, received by the society for transfer of shares and interest of the deceased member in the capital / property of the society shall be dealt with in the manner provided under the Bye-laws of the society. A copy of the registered Bye-laws of the society is available for inspection by the claimants / objectors, in the office of the society / with the secretary of the society between 4 June 2021 11:00 am to 01:00 pm to 18 June 2021 11:00 am to 01:00 pm from the date of publication of the notice till the date of expiry of its period.
Place: Mumbai Date : June 04, 2021
For and on behalf of
The Highland Park B Co-operative Housing Society Limited
Hon Secretary.

AJAY MULTI PROJECTS LIMITED
Regd. Off.: 3-B, 1st Floor, Plot 285, Chaturbhuj Jivandas Bldg Shamaldas Gandhi Marg, Marine Lines, Kalbadevi, Mumbai Mumbai City MH 400002 IN
CIN:L45201MH1982PLC100777

Extract of Standalone Audited Financial Results for the quarter & year ended 31st March, 2021
(Rs in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended 31st March, 2021	Quarter Ended 31st December, 2020	Quarter Ended 31st March, 2020	Year Ended 31st March, 2021	Year Ended 31st March, 2020
	(Audited)	(Un-audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
Total income from operations	47.19	623.99	188.11	968.94	396.42
Net Profit / (Loss) (before tax and/or extraordinary items)	29.32	617.34	118.81	25.92	67.58
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Extraordinary items)	29.32	617.34	118.81	25.92	67.58
Net Profit/ (Loss) after tax (after extraordinary items)	29.32	617.34	118.81	23.67	55.02
Total Comprehensive income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	49.69	41.31	-316.01	206.52	-592.44
Equity Share Capital	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Earnings Per Share (of 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Basic :	2.44	51.54	9.90	1.97	4.44
Diluted:	2.44	51.54	9.90	1.97	4.44

Note:
1 The above is an extract of the detailed format of quarterly and yearly financial results filled with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full format of financial results are available on Company's website (ampitd.co.in)

For Ajay Multi Projects Limited
Sd/-
Mr. Mahavir Jain
(Director)

Place : Mumbai
Date: 03-06-2021

NOTICE
" NOTICE is hereby given that the Share Certificate with respect to Flat No.B-35 and Flat No.B-36 issued by Mangolia Premises Pvt. Ltd. having their office at Plot No. 24 to 31, Lane No. 11, Kalyani Nagar, Pune - 411 006. (Email id: mangoliapremises@gmail.com) in the name of Mrs. Nooru Khairaz and Mr. Mahmood Khairaz respectively, has been reported misplaced / lost / not traceable.

An application has been received from them for issue of duplicate share certificate. Any person having any objection or claim to issue a duplicate share certificate in lieu of the lost one, should communicate his objection in writing to the Society, at the aforesaid address of the Society, within fifteen days (15) from the date of issue of this notice, failing which the duplicate share certificate will be issued in lieu of misplaced / lost / untraceable share certificate, without any reference to such claim and the claims, if any, deemed to have been waived and/or abandoned." Dated this 4th day of June, 2021.

For Mangolia Premises Pvt.Ltd.
Chairman/Secretary

NOTICE
Late Mustafa Dawood Patankar Member of the Chembur Om Co-Op. Housing Society Ltd., Bldg No. 36, Subhashnagar, Chembur, Mumbai- 400 071, and holding Room No.1295 in the building of the society, died on 25/07/2010, without making any nomination, and in his place, his wife i.e. Smt. Shabnam Mustafa Patankar as applied to the Society for membership, in respect of said Chembur Om Co-Operative Housing Society Ltd., Bldg No. 36, Subhashnagar, Chembur, Mumbai- 400 071.

The society hereby invites claims or objections from the heir or heirs or other claimants/objector or objectors to the transfer of the said shares and interest of the deceased member in the capital/property of the society within a period of Fifteen days from the publication of this notice, with copies of such documents and other proofs in support of his/her/their claims/objectors for transfer of shares and interest of the deceased member in the capital/property of the society. If no claims/objectors are received within the period prescribed above, the society shall be free to deal with the shares and interest of the deceased member in the capital/property of the society in such manner as is provided under the bye-laws of the society, in favour of Smt. Shabnam Mustafa Patankar. The claims/objectors, if any, received by the society for transfer of shares and interest of the deceased member in the capital/property of the society shall be dealt with in the manner provided under the bye-laws of the society. A copy of the registered bye-laws of the society is available for inspection by the claimants/objectors, in the office of the society/with the Secretary of the society between 9:00 A.M. to 5:00 P.M. from the date of publication of the notice till the date of expiry of its period.
Place : Mumbai
Date : 04.06.2021
For Chembur Om Co-op Hsg. Soc. Ltd.,
Sd/-
Authorised Officer

SURAJ PRODUCTS LIMITED
CIN:L26942OR1991PLC002865
Regd. Off : Vill : Barpali, P.O : Kesramal Rajgangpur, Dist. Sundargarh, Odisha-770017

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Saturday, the 12th day of June, 2021** at the Registered Office of the Company to consider and approve the Standalone Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2021.

Date: 03.06.2021
By order of the Board
A.N.Khatua
Company Secretary
Place: Barpali

PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given to the public at large on behalf of our clients, **Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA)** having its registered office at Plot No C-14 & 15, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051 are in process of acquiring the property bearing:
City Survey No. 31/B1, area admeasuring about 626.98 sq. meters, situated at Village: Kandivali, Taluka: Andheri, Mumbai Suburban District, Mumbai (hereinafter referred to as the "said property")
It is therefore informed to the Public at large and all concerns that, if any person/s having any claims or dispute about the title of the said owner / property and / or claims in respect of the said Property of whatsoever nature by way of lease, lien, gift, sale, mortgage, maintenance or any other rights or claims, are hereby called upon to make the same known in writing to the undersigned on the address given herein below and / or to Mr. Girish Gosavi (Legal Officer) of our Client, with all their concerned original documents within fifteen (15) days from the date of publication of this notice, failing which, the claims, objections, if any in respect of the said Property shall be considered to have been waived and / or abandoned without any such reference and our clients shall proceed to take necessary steps / action for acquiring the said property by following the due process of law. Thereafter, our clients shall neither be under any obligation nor shall be responsible for any such claims, objections or complaints in any manner whatsoever.

SCHEDULE OF THE PROPERTIES
City Survey No. 31/B1, area admeasuring about 626.98 sq. meters, situated at Village: Kandivali, Taluka: Andheri, Mumbai Suburban District, Mumbai

Dated this 04th day of June, 2021.
Mr. Girish Gosavi, Legal Department
M.M.R.D.A. OFFICE BUILDING, BANDRA-KURLA COMPLEX, C-14 & 15, E BLOCK BANDRA (EAST), MUMBAI - 400 051
Phone no : 022 - 2657544

For SRM Law Associates
306, Vardham Chambers, 17-G, Cawasji Patel Street, Fort, Mumbai - 1
Email address: amar.mishra810@gmail.com

WIMCO
Wimco Limited
CIN: U24291MH1923PLC001082
Registered Office: Indian Mercantile Chambers, R. Kamani Marg, Ballard Estate, Mumbai 400 001
Tel: +91 22 4366 3333 • Fax: +91 22 2269 2228 • E-mail: wimcolimited3@gmail.com

NOTICE OF REDUCTION OF EQUITY SHARE CAPITAL
(C. P. No. 1228/MB-1/2020 under Section 66 of the Companies Act, 2013)

The Hon'ble National Company Law Tribunal, Mumbai Bench (NCLT), vide Order dated 9th April, 2021, has confirmed the "Reduction of Equity Share Capital" of the Company by approving the Minutes set forth herein below:
"The Issued, Subscribed and Paid-up Equity Share Capital of Wimco Limited henceforth is ₹ 18,50,81,193 divided into 18,50,81,193 Equity Shares of ₹ 1/- each."

This advertisement is published as per the directions of the NCLT vide Order dated 9th April, 2021.

Wimco Limited
Surenbra K. Sipani
Company Secretary
Dated: 3rd June, 2021
Place: Mumbai

Mahindra
Rise.
IN THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
MUMBAI BENCH, COURT NO. II
CPC(AA) No.101/MB/C-II/2020
connected with
CA(CAA) No.3948/MB/C-II/2019

Mahindra Vehicle Manufacturers Limited
(CIN: U34100MH2007PLC171151) ...First Petitioner/Transferor Company
Mahindra and Mahindra Limited
(CIN: L65990MH1945PLC004558) ...Second Petitioner/Transferee Company

NOTICE FOR APPROVAL OF SCHEME OF MERGER
TAKE NOTICE that, the Scheme of Merger by Absorption of Mahindra Vehicle Manufacturers Limited ("MVML" or Transferor Company) with Mahindra and Mahindra Limited ("M&M" or Transferee Company) and their respective Shareholders ("the Scheme") filed under section 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, was approved by the National Company Law Tribunal, Mumbai Bench comprising of Hon'ble Shri H. P. Chaturvedi, Member (I) and Hon'ble Shri Ravikumar Duraisamy, Member (T) on 26th April, 2021.
Dated this 03rd day of June, 2021.

Sd/-
Hemant Sethi & Co.
Advocates for Petitioner Companies
309 New Bake House,
Maharashtra Chamber of Commerce Lane,
Kala Ghoda, Fort, Mumbai 400023

Navi Mumbai Municipal Corporation
City Engineering Department
Re-Tender Notice No. NMMC/C.E./EE(A)/38/2021-21

Sr. No.	Name of Work	Estimated Cost (Rs.)
1	(69532)Improvement of road from Bholenath electric shop to Times of India nalla ward no. 07 Chinchpada Airoli	1949963.00
2	(69919)Repair & Improvement of Road excavated for Laying Sewage Line at Sector 02, Ward No.12 in Airoli Ward	2081584.00

Tender booklets will be available on e-tendering computer system at www.nmmc.tenders.in and at www.nmmc.gov.in website of NMMC on dt. 04/06/2021. The tender is to be submitted online at www.nmmc.tenders.in. For any technical difficulties in the e-tendering process, please contact the help desk number given on this website

The right to accept or reject any tender is reserved by the Hon'ble Commissioner of Navi Mumbai Municipal Corporation.

Sig:-
Executive Engineer (Airoli)
NMMQP Adv no.225/2021

Fundamentals strong for Motherson Sumi

Further margin gains could be a key trigger for the stock


RAM PRASAD SAHU
Mumbai, 3 June



SOLID FOUNDATION

	FY20	FY21	FY22E	FY23E
Net sales (₹ cr)	63,536	60,194	77,615	86,528
% growth	0.02	-5.26	28.94	11.48
Operating profit (₹ cr)	5,201	4,970	8,862	10,725
Margin (%)	8.19	8.26	11.42	12.39
Net profit (₹ cr)	1,170	1,049	2,747	3,697
% growth	-27.46	-10.34	161.87	34.58

CASH FLOWS TO IMPROVE



E: Estimates; consolidated financials

Source: Motilal Oswal Research

However, longer pass through contracts and higher copper content in the truck business could lead to near-term pressures as was the case with its subsidiary PKC, which saw profitability pressures despite a 21 per cent rise in revenues.

Analysts at JM Financial say SMRPBV reported strong margins for the second consecutive quarter, driven by sustained improvements in performance of greenfield facilities owing to continued focus on cost reduction and efficiency enhancements. This coupled with no major greenfield facility in the near term is expected to translate into an improvement in cash flows and falling debt levels. Consolidated net debt is down from ₹7,992 crore at the end of FY19 to ₹4,820 crore in FY21. Most analysts expect the return on equity (10 per cent at pres-

ent) and net profit growth to jump 3-4 times over the next four years.

The Street is positive about the execution capabilities, healthy order book, improving margins and growth expectations from a cyclical upturn, but some brokerages have downgraded it citing valuations concerns. Despite a beat on estimates, Edelweiss has downgraded the stock given the sharp rally in its price. While management continues to execute well, the brokerage believes the Street's extremely high expectations (reflected in valuations) leave little room for disappointment.

At the current price, the stock is trading at 21 times its FY23 estimates as against its historical average of 20 times. Further corrections could be used as an opportunity by investors to buy the stock.

Cloud lifts over cryptos, but volatility remains

Start with small investments, but exclude from portfolios aimed at key financial goals

BINDISHA SARANG

Last week, the Reserve Bank of India (RBI) asked banks not to cite its 2018 order as a reason for denying services to customers who deal in cryptocurrencies. After this, both the cryptocurrency industry and investors heaved a sigh of relief. It appears that India may not emulate China and deny the industry access to banking services.

Perilous existence

Cryptocurrency exchanges in India have lived under the threat of closure for many years. First, the central bank issued a circular in April 2018 banning banks and other entities regulated by it from providing services to the exchanges. As a result, investing ground to a halt. In April 2020, however, the Supreme Court lifted the ban.

Nonetheless, the regulatory uncertainty lingered owing to reports that the government may pass legislation to ban cryptocurrencies. Finance Minister Nirmala Sitharaman's statement in March that the government would take a calibrated approach brought some relief. In May, however, crypto exchanges once again began to complain of banks denying services. China's crackdown on the industry also stoked fears.

EXPERTS' TAKE ON CRYPTOCURRENCY TAXATION



RBI's latest instruction has bolstered the view that Indian investors may be allowed to invest in cryptocurrencies. Says Sumit Gupta, chief executive officer (CEO) and co-founder of CoinDCX: "RBI's clarification is a welcome move for both the crypto investor community and crypto exchanges operating in the country."

To allay the government's apprehensions that crypto investments could become a conduit for illegal activities, the industry has decided to undertake self-regulation. The Blockchain and Crypto Assets Council (BACC), a part of the Internet and Mobile Association of India (IAMAI), is setting up a board to oversee the

Income or gains from the sale of cryptocurrencies will be taxable, though specific guidelines from the income-tax department are awaited, say experts
Cryptocurrencies may be treated as a long-term capital asset when held for more than three years, with taxation at 20 per cent rate along with indexation benefit
When held for less than three years, they are likely to be taxed at applicable slab rates
Tax treatment may be different for those who trade frequently (it may then be treated as business income)

Source: ClearTax

implementation of a self-regulatory code of conduct for member exchanges. The code includes voluntary compliance with anti-money laundering, know your customer (KYC) regulations, company and taxation laws, and combating of terrorism financing.

Volatility remains high

While the regulatory cloud hanging over cryptocurrencies has dissipated for now, volatility remains a concern. Bitcoin traded at around \$11,200 in end-July 2020. From there it rose to \$63,300 by mid-April 2021, and then fell sharply to around \$30,000 in mid-May.

Says Avinash Shekhar, co-CEO, ZebPay: "Cryptocurrencies are a new asset class and investors should treat it as an investment in a

start-up—as a high-risk high-reward category. As in any new asset class, there will be price volatility in the short term." He adds that it may become a more stable asset class as it matures.

Every retail investor may not, however, be able to handle such high volatility.

What should you do?


Most financial planners (FPs) remain skeptical about cryptocurrencies, one reason being that it is not a regulated asset class. "I would advise retail investors to avoid any asset class that is not tightly regulated," says Vishal Dhawan, chief financial planner, Plan Ahead Wealth Advisors.

FPs believe cryptos can't be made a part of regular portfolios. Says Pankaj Mathpal, managing director and CEO, Optima Money Managers: "They can't be a part of portfolios aimed at achieving goals like children's education, retirement, etc." He says investors can at best set aside some money, which they can afford to lose, for investing in cryptocurrencies, provided they are clear they are speculating with this money, just as one would on a lottery ticket.

Adds M Barve, founder, MB Wealth Financial Solution: "If you have checked all boxes of financial management and have some cash left which you can write off mentally, you may invest in cryptocurrencies but for the long term."

Oil steady after sharp rise on improved demand

BRENT CRUDE SPOT (\$/BBL)



REUTERS

London, 3 June

Oil prices were little changed on Thursday after strong gains in the previous two sessions on expectations for surging fuel demand later this year while major producers maintain supply discipline. Brent crude futures were up 12

cents, or 0.17 per cent, at \$71.47 a barrel by 0952 GMT after touching their highest since September 2019 at \$71.99. The international benchmark had gained 1.6 per cent on Wednesday.

US West Texas Intermediate crude futures rose 8 cents, or 0.12 per cent, at \$68.91. Prices rose as high as \$69.40, the strongest since

October 2018, after gaining 1.5 per cent in the previous session.

The consensus among market forecasters, including the Organization of the Petroleum Exporting Countries (Opec) and its allies within the wider Opec+ group of producers, is that oil demand will exceed supply in the second half of 2021.

NOTICE INVITING TENDER
The Block Development Officer of Raghunathganj-II Block invites Notice Inviting Tender through Engagement of "Carrying cum Distribution Agent" for MDM food grains under Raghunathganj-II Dev. Block.

Sl. No.	Notice Inviting Tender	Period of Submission
1	Memo No. 939(45)/1/MDM/Rng-I/En Dated : 03.06.2021	On and from 03.06.2021 to 17.06.2021 up to 2.00 P.M.

Details of NIT will be available at Notice Board.
Sd/- Block Development Officer
Raghunathganj-II; Murshidabad

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
NOTICE INVITING E-TENDER
Memo No.- 18/WB/Eng/2021 Dated 02-06-2021
Corrigendum
It is notified that the intending bidder will read the following in connection with E-Tender Notice No.- ET-754/PW/Eng/2021 (3rd Call) dated 07-01-2021 for SI No.- 01.
1. The date and time of opening of Technical Proposal (online) should be read as "16-06-2021 after 3 P.M." instead of "16-03-2021 after 3 P.M."
All other conditions are remain same. Sd/- Executive Engineer
Asansol Municipal Corporation

APPOINTMENTS

Office of the Chief Medical Officer of Health Jalpaiguri
EMPLOYMENT NOTICE (COVID Urgent)
Eligible candidates are requested to appear on Walk in interviews for engagement of **Molecular Biologist (02 nos.)** and **Laboratory Technicians (04 nos.)** on 08.06.2021 and Eligible candidates are requested submit application (last date - 11.06.2021) for the post of **Data Entry Operator (DEO-02 nos.)** for RT-PCR Lab, DH, Jalpaiguri All above mentioned posts will engage on temporary (initially for 03 months only). For more details please visit our website www.jalpaigurihealth.com & www.wbhealth.gov.in.
Sd/-
Chief Medical Officer of Health
Jalpaiguri

Business Standard newspaper delivering safely to homes and offices
For details, SMS reaches to 57575 or email order@bmail.in
Business Standard
Insight Out

SURAJ PRODUCTS LIMITED
CIN- L28942OR1991PL0002865
Regd. Off: Vill: Barpali, P.O.: Kesramal Rajgangpur, Dist. Sundargarh, Odisha-770017

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Saturday, the 12th day of June, 2021** at the Registered Office of the Company to consider and approve the Standalone Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2021.
Date: 03.06.2021 By order of the Board
Place: Barpali Company Secretary

TENDER NOTICE
Tender is being invited for Carrying-cum-Distribution Agent of Cooked Mid-Day-Meal Programme.
1) Tender Ref No : NIT No. 01/MDM/BDO/2021-22/En dated 03/06/2021
2) Last date of Submission of tender: 16.06.2021 (upto 16.00 hours)
3) Date of Opening of tender: 17.06.2021 (upto 12.30 hours)
Sd/-
Block Development Officer
Lalgola Development Block
Murshidabad

Notice Inviting Tender
N.I.T. is invited through offline by the Block Development Officer, Berhampore Development Block, Murshidabad for 1 (one) nos. others works under Berhampore Development Block from 04.06.2021 to 18.06.2021.
Date of start tender - 04.06.2021 at 11:00 hrs.
End date of submitting tender - 18.06.2021 up to 16:00 hrs.
N.B. details may be obtained from <http://www.berhamporeblock.in> & from this office during office hours.
Sd/-
Block Development officer
Berhampore Development Block
Murshidabad

Notice Inviting Tender
The Block Development Officer, Beldanga-II, Murshidabad invites sealed Tender in plain paper from the enlisted distributors / Carrying contractors of F&S Dept. as furnished below.
NIT No & Date : 01/MDM/BeI-II/2021-22 Dated 02.06.2021.
Sate of dropping: Up to 14:00 Hours on 17.06.2021.
Sd/-
Block Dev. Officer
Beldanga-II, Murshidabad

EASTERN RAILWAY
Tender No. ELD-125-WC-OT-03-21, Dated: 31.05.2021, Sr. DEE/TRD/HWH invites open e-Tenders against Tender No. ELD-125-WC-OT-03-21 for the following work: Modification, Erection, Testing & commissioning of 25KV AC OHE at Gate No. 44 in connection with the work upgradation & interlocking of Manned level crossing gates (09 nos.).
Advertised Value: Rs. 24,01,823.90. Earnest Money/ Bid Security: 0.00. Obtain Bid Security Declaration in lieu of Bid Security : Yes. Bidding System: Single Packet System. Validity of offer: 45 Days. Date and Time of uploading Tender: 31.05.2021, 14:07. Bidding Start Date: 08.06.2021. Tender closing date and time: 22.06.2021 at 15:00 hrs. Opening of Tender: Tender will be opened any time after closing of tender. Tenderers may visit website www.ireps.gov.in for full details/ description/specification of the tenders and submit their bid online. HWH-33/2021-22
Tender Notices are also available at Website www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in

EASTERN RAILWAY
CORRIGENDUM-1
Corrigendum-1 to No. S.4/S/DAP/June/2021-22, Date: 18.05.2021. Auction Programme date of BESY Depot for the month of June 2021 of Eastern Railway is rescheduled as follows: Existing Date: 19.06.2021 (Saturday), Amended Date: 25.06.2021 (Friday). All other schedules, terms and conditions shall remain unaltered. (Website: <http://www.ermis.gov.in>).
STORES-11/2021-22
Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

Tender Notice
Online tenders are invited by the Principal, Ramkrishna Mahato Government Engineering College, Purulia -723103 from private Entrepreneurs / Agencies for supply of Mess workers for Boy's and Girl's hostel and also to provide man power for gardening and sweeping of the college campus through electronic tendering (e-tendering) process. The details are available in website <https://wbenders.gov.in> from 04/06/2021. Last date of submission of tender is 18/06/2021.

Notice Inviting Tender
The Block Development Officer, Nabagram, Murshidabad invites sealed Tender in plain paper from the enlisted distributors / Carrying contractors of F&S Dept. NIT No & Date : 01/MDM/2021-22 Dated 02.06.2021 Sate of dropping : Up to 16:00 Hours on 17.06.2021.
Sd/-
Block Dev. Officer
Nabagram,
Murshidabad

Office of the Block Development Officer Raghunathganj-II Dev. Block Jangipur, Murshidabad : 742213
Tender Notice Memo No:- 1137(49)/En, Dt-02.06.2021
Tender is being invited for engagement of Distributor/ Carrying Contractor for CMDM Programme in the Jurisdiction of Raghunathganj-II Dev. Block in Murshidabad District. Last Date and Time of the application:-16.06.2021 upto 4.00 PM.
Any query please contact with MDM section of the undersigned.
BDO, Raghunathganj-II Dev Block

ICICI Bank
Corporate Office: ICICI Bank Tower, B.K.C., Mumbai 400 051
Branch Relocation Notice
Dear Customers,
We wish to inform you that we are relocating a branch to a more convenient location as per details mentioned below:
Present Address: ICICI Bank Ltd. Ambition - Ojha Plaza, Opp - Sahitya Sammelan, Kadamtuan, Patna - 800003.
New Address: Ground Floor, Dharahara Kothi, Churi Market Road, Kadamtuan, Patna - 800003.
The branch will be operational at the new address from July 5, 2021
There would be no change in your account numbers or the security items issued to you. Assuring you of the best services.
Sincerely,
Branch Manager






GREEN PROJECTS WING
WEST BENGAL FOREST DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
(A Govt. of West Bengal Undertaking)
10A, Auckland Road, Eden Gardens, Kolkata-700 021 • CIN : U02005WB1974SGC029535
ABRIDGED TENDER NOTICE
NIT No.: 24/GPW/WB/FC/2021-22
The Ex-officio Manager, GPW, WB/DCI & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for **5th year maintenance of landscaping and beautification at Vidyasagar Setu Toll Plaza and approaching road from Toll Plaza to Kona Expressway.** Details can be seen at <https://wbenders.gov.in> Last date of bid submission for NIT 24/GPW/WB/FC/2021-22 is 23.06.2021.

OFFICE OF THE B.O.A BOLPUR MUNICIPALITY
BOLPUR:BIRBHUM
Notice Inviting Tender No- e Tender No- WBMAD/ULB/BM/PW/ Development Grant/Nit-12(2nd Call)/2020-21 Date: 03.06.2021 Memo no: 176(13)/DOA/BM/PW/2021-22 Date: 03.06.2021 Name of the Work: Construction of Cement concrete Road, Repairing of Bituminous Road with Mastic Asphalt, Construction of Cement concrete Drain, in ward no-02,03,05,07,17,18,18,8(Eight) nos works (ii) Notice Inviting Tender No- e Tender No-WBMAD/ULB/BM/PW/Development Grant/N.I.T No- 13 (2nd Call)/2020-21 Date: 03.06.2021, Memo no- 177(13)/BOA/BM/PW/2021-22 Date: 03.06.2021, Name of the Work Construction of PCC Road in ward no 19.
Last Date-of Submission 21.06.2021, For details see Bolpur Municipality Notice Board & Web Site: www.bolpurmunicipality.org.
Chairperson
Board of Administrators
Bolpur Municipality

OFFICE OF THE B.O.A BOLPUR MUNICIPALITY
BOLPUR:BIRBHUM
Notice Inviting Tender No- e Tender No- WBMAD/ULB/BM/PW/ Development Grant/nit-01/2020-21 Date: 03.06.2021 Memo no: 178(13)/BOA/BM/PW/2021-22 Date: 03.06.2021 Name of the Work Improvement & Extension of existing Bituminous Road by Mastic Asphalt in ward no- 06.
Last Date-of Submission 21.06.2021, For details see Bolpur Municipality Notice Board & Web Site: www.bolpurmunicipality.org.
Chairperson
Board of Administrators
Bolpur Municipality

Fullerton India Credit Company Limited
Corporate Office: Supreme Business Park, Floors 5 & 6, B Wing, Powai, Mumbai 400 076
SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES
E-Auction Sale Notice of 15 days for Sale of Immovable Asset(s) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to rule 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Fullerton India Credit Company Limited/Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 23.06.2021 at 11:00 am to 01:00 pm (with unlimited extensions of 5 minute each), for recovery of Rs. 4,02,63,377.76/- (Rupees Four Crore Two Lakhs Sixty Three Thousand Three Hundred Seventy Seven and Seventy Six Paise Only) as on 03.04.2019 and further interest and other expenses thereon till the date of realization, due to Fullerton India Credit Company Limited/Secured Creditor from the Borrowers and Guarantor(s) namely **Harsh Vardhan Ruia, Sapphire Banquet Private Limited and Prady Kumar Ruia**.
The reserve price will be Rs. 3,55,00,000/- (Rupees Three Crore Fifty Five Lakhs Only) and the Earnest Money Deposit (EMD) will be Rs. 35,50,000/- (Rupees Thirty Five Lakhs Fifty Thousand Only). The last date of EMD deposits is 21.06.2021.
Description of Immovable Property: All that office space being Unit nos. 2 & 3 measuring about 4538 Sq.ft. on the 6th floor together with 3 nos. of open car parking spaces measuring about 135 sq.ft. each (totaling to an area of about 405 Sq.ft.) on the Basement/ Lower Ground floor of the building named and known as "RAIKVA" and built and constructed at or upon the plot of land measuring about 78 Cotahs 9 Chittaks and 43 Sq.ft. and situated at and upon and presently known and numbered as municipal premises no.3A, Rammohan Mullick Garden Lane under P.S. Beliaghata Kolkata 700010 within the limits of Kolkata Municipal Corporation TOGETHER WITH the undivided impartial under marced proportionate share and interest in the said land TOGETHER WITH proportionate undivided share and interest in the common amenities and common facilities of the said building known as "RAIKVA" and built and bounded in the manner that on the North: By Premises No.3B Rammohan Mullick Garden Lane, on the East: By Eastern Metropolitan Bypass, on the South: By Premises No.76 Beliaghata Main Road, on the West: By Rammohan Mullick Garden Lane, Kolkata - 700010
For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Fullerton India Credit Company Limited/Secured Creditor's website i.e. www.fullertonindia.com
Place: Kolkata SD/- Authorised Officer.
Date: 04.06.2021 Fullerton India Credit Company Limited

2 कंपनी समाचार



संक्षेप में

चीन का बाजार पूंजीकरण 12 लाख करोड़ डॉलर

चीन के बाजार में शेयरों की मौजूदा तेजी से कुल बाजार पूंजीकरण 12 लाख करोड़ डॉलर पर पहुंच गया, जो मार्च 2020 में वैश्विक महामारी घोषित किए जाने के बाद से 55 फीसदी ज्यादा है। राजकोपीय सहायता और मौद्रिक नीति के अलावा भारी नकदी ने आर्थिक सुधार को रफ्तार दी और युआन को मजबूत बनाया। साथ ही चीन के एक्सचेंजों पर इक्विटी की कीमत पिछले अक्टूबर के मुकाबले बढ़ी, जब पहली बार यह 10 लाख करोड़ डॉलर पर पहुंचा था। बाजार कीमत का एक हिस्सा नई सूचीबद्धता से हासिल हुआ है।

आईडीबीआई बैंक को ब्रिटेन की अदालत से राहत

लंदन के उच्च न्यायालय के वाणिज्य संभाग ने भारतीय कंपनी एस्सर शिपिंग ग्रुप की साइप्रस स्थित एक सहायक इकाई के खिलाफ 23.9 करोड़ डॉलर के कर्ज के मामले में आईडीबीआई बैंक के पक्ष में फैसला सुनाया।

ऑफिस ऑफ इंडिया बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: स्टार हाउस, सी-5, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ली कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई-400 051
8.57% बैंक ऑफ इंडिया बेसल III कर्नाडाई टिटर II बांड - सीरीज XIII (ISIN No. INE084A08094) 7 जुलाई, 2016 को जारी के संबंध में
आय का घुटाना और कॉल ऑप्शन प्रयोग करने हेतु नोटिस
 उपयुक्त प्राधिकारी के अनुमोदन से और निष्काशक और अन्य अनुमोदनों के तहत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक ने उपरोक्त बांड पर 7 जुलाई, 2021 को कॉल ऑप्शन प्रयोग करने और इस उद्देश्य के लिए **रिकार्ड तिथि 6 जून, 2021** घोषित करने का निर्णय लिया है। जैसा कि 5 जून, 2021 और 6 जून, 2021 क्रमशः शनिवार और रविवार होने से मार्केट अवकाश है, हम रिकार्ड तिथि के रूप में 4 जून, 2021 को बांडधारकों की नोटीफिकेशन जारी करना (BENPOS) प्रयोग करेंगे।
 व्यवहारात्मक नोटिस बांडधारकों को भेजे जायेंगे और ये बीएसई/एनएसई को सूचित करते हुए बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर भी उपलब्ध होंगे।
रचना: मुंबई, दिनांक: 03.06.2021
कंपनी सचिव

OFFICE OF THE B.O.A BOLPUR MUNICIPALITY BOLPUR:BIRBHUM

Notice Inviting Tender No- e Tender No- WBMAD/ULB/BM/PW/Development Grant/Int-01/2020-21 Date: 03.06.2021 Memo no: 176(13)/DOA/BM/PW/2021-22 Date: 03.06.2021 Name of the Work: Construction of Cement concrete Road, Repairing of Bituminous Road with Mastic Asphalt, Construction of Cement concrete Drain, in ward no-02,03, 05, 07, 17, 18, 8(Eight) no works (ii) (Notice Inviting Tender No- e Tender No-WBMAD/ULB/BM/PW/Development Grant/N.I.T No- 13 (2nd Call)/2020-21 Date: 03.06.2021, Memo no- 177(13)/BOA/BM/PW/2021-22 Date: 03.06.2021, Name of the Work Construction of PCC Road in ward no 19.

Last Date-of Submission 21.06.2021, For details see Bolpur Municipality Notice Board & Web Site: www.bolpurmunicipality.org.

Chairperson Board of Administrators Bolpur Municipality

OFFICE OF THE B.O.A BOLPUR MUNICIPALITY BOLPUR:BIRBHUM

Notice Inviting Tender No- e Tender No- WBMAD/ULB/BM/PW/Development Grant/Int-01/2020-21 Date: 03.06.2021 Memo no: 178(13)/BOA/BM/PW/2021-22 Date: 03.06.2021 Name of the Work Improvement & Extension of existing Bituminous Road by Mastic Asphalt in ward no- 06.

Last Date-of Submission 21.06.2021, For details see Bolpur Municipality Notice Board & Web Site: www.bolpurmunicipality.org.

Chairperson Board of Administrators Bolpur Municipality

भारतीय संस्कार निगम लिमिटेड

भारत सरकार का एक सहायक उपकरण
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
 (A NAVARATNA UNDERTAKING OF GOVT. OF INDIA)
 "Duckback House" 5th Floor, 41, Shakti Square, Kolkata-700017
 Ph.No. 033-2263 7101 to 7105. Website: www.concorindia.in

निविदा सूचना (केवल ई-निविदा सह रिजर्व नीलामी प्रक्रिया)
 कंनिकार बालासोर टर्मिनल पर कंटेनर/कागों के सर्वेक्षण के लिए सेवाएं प्रदान करने हेतु दो बोली प्रणाली में केवल ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन सूची में निविदा सह रिजर्व नीलामी आमंत्रित की जाती है। ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट www.tenderwizard.com/CCIL के जरिए ₹ 1,180/- भुगतान करने पर बोली दर्ताबद्ध डाउनलोड किया जा सकता है।

निविदा सं. / निविदा का नाम	कटौत/ई-निविदा की तिथि
कंनिकार का नाम	कंनिकार के नाम से प्रस्ताव (सीमाबद्ध) पर कंटेनर/कागों का सर्वेक्षण
अनुमानित लागत	₹. 3.47 लाख प्रति वर्ष अनुमानित
अनुबंध की अवधि	4+1 वर्ष
निविदा दर्ताबद्ध की तिथि (अग्रिम)	₹. 1,180/- सभी कर और ड्यूटी सहित ई-पेमेंट के माध्यम से
समाप्त राशि का नाम	₹. 7,000/- ई-पेमेंट के माध्यम से
निविदा प्रस्तुत करने की तिथि (अग्रिम)	₹. 1,026/- सभी कर और ड्यूटी सहित ई-पेमेंट के माध्यम से
निविदा का तारीख (अंतिम)	07.06.2021 (अपराह्न 3.00 बजे) से 28.06.2021 (शाम 4.00 बजे) तक
निविदा नाम कर का तिथि व समय (अंतिम)	29.06.2021 को अपराह्न 3.00 बजे या उसके पहले
निविदा बंद करने की तिथि व समय (अंतिम)	30.06.2021 को अपराह्न 3.30 बजे

कोई भी कागज न दर्शाते हुए किसी भी या सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार कंनिकार द्वारा सुरक्षित है। सम्पूर्ण विवरण के लिए www.tenderwizard.com देखें। **क्षेत्र प्रधान-क्षेत्र IV**

बिजनेस स्टैंडर्ड कोलकाता संस्करण

बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जॉयदीप चक्रवर्ती द्वारा सरस्वती प्रिंट फेक्टरी प्राइवेट लिमिटेड, 789, चौभाग स्टेट, पोस्ट ऑफिस-तिलजाला, कोलकाता-700105, प. बंगाल से मुद्रित एवं 4/1, रेड क्रॉस लेस, तीसरा तल, कोलकाता- 700001, प. बंगाल, से प्रकाशित
 संपादक: कैलाश नौटियाल

आरएचआई नं 0 WBHN/2008/24333
 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं।
 टेलीफोन - 033-22101314/1022/1600 फैक्स- 033-22101599
 सार्वजनिकता और सर्कुलेशन के लिए कृपया संपर्क करें:-

सुश्री मानसी सिंह
 हेड कंट्रोलर रिलेशंस
 बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, सेन्टुरी मिक्स के सामने, पी सी मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 013
 ई-मेल- subs_bs@bsmail.in
 या 57575 पर एएसएमएस करें REACHBS

डिस्कलेमर:- बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से प्रकाशकों, कॉपीराइट उल्लंघन और सरकारों से जुड़ी घटनाओं को निष्पक्ष तरीके से प्रकाशित किया जाता है। बिजनेस स्टैंडर्ड के निदेशन एवं जानकारी से पूरे परिचितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले विवेक और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से उदात्त विवेक लेने की अपेक्षा की जाती है। बिजनेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सदस्यों में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिजनेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापकों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए।
 मैग बिजनेस स्टैंडर्ड प्राो लिो का सर्वाधिकार सुरक्षित है। बिजनेस स्टैंडर्ड प्राो लिो से लिखित अनुमति के बिना और समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस तरह का निषिद्ध एवं अवधिकृत कार्य करने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की जाएगी।

प्रति कॉपी 50 पैसे का हवाई अधिभार हर उत्तर-पूर्वी राज्य और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर लागू

रिलायंस को गैस कारोबार से ताकत

कंपनी को 2022 में खोज एवं उत्पादन इकाई से होगा तगड़ा लाभ

त्वेष मिश्र
 नई दिल्ली, 3 जून

रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) को वित्त वर्ष 2021-2022 में अपने अन्वेषण एवं उत्पादन वर्तिकल से तगड़ा लाभ मिल सकता है।

इंडिया इन्फोलाइन ग्रुप (आईआईएफएल) के उपाध्यक्ष हर्ष डोले के अनुसार, आरआईएली की मुख्य गैस खोजों का व्यावसायीकरण बढ़ा बदलाव लाने में अहम योगदान देगा।

डोले ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'वित्त वर्ष 2021-22 आरआईएल के लिए अपस्ट्रीम व्यवसाय के संदर्भ में बड़े बदलाव वाला वर्ष होगा। ऐसा इसलिए संभव है, क्योंकि डीपावटर आर-क्लस्टर फोल्ड दिसंबर 2020 में व्यावसायिक हो गया और इसकी क्षमता में सुधार हुआ है और इसमें समय से पहले ही व्यावसायिक सैटेलाइट क्लस्टर का लक्ष्य हासिल कर लिया गया। इस क्षेत्र का गैस उत्पादन पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा रहेगा।' उन्होंने कहा, 'एमजे क्षेत्रों के संभावित वाणिज्यीकरण (वित्त वर्ष 2022-23 में) से गैस उत्पादन बिक्री पर परिदृश्य मजबूत दिख रहा है।'

आरआईएल को वर्ष 2023 में किसी समय तक इन तीन क्षेत्रों से प्रति दिन 3 करोड़ घन मीटर गैस उत्पादन का अनुमान है। यह भारत के उत्पादन में लगभग 25 प्रतिशत और देश की कुल मांग में 15 प्रतिशत होगा। आरआईएल के सालाना रिपोर्ट के अनुसार, समूह के तेल एवं गैस खोज एवं उत्पादन व्यवसाय के लिए राजस्व 33.4 प्रतिशत सालाना घटकर 2,140 करोड़ रुपये रह गया। सालाना रिपोर्ट में कहा गया है, 'इसकी मुख्य वजह पारंपरिक क्षेत्रों से कम बिक्री और कम जिंस कीमत प्राप्ति थी।'

लेकिन अब ईस्ट वर्तिकल में हालात सुधरने की संभावना दिख रही है जिसका असर 2021-22 में स्पष्ट रूप से दिखेगा।

डोले ने कहा, 'वित्त वर्ष 2021-22 में तेल कीमतें पिछले 12 महीने के मुकाबले ऊपर रहने की संभावना है और मांग भी बेहतर रह सकती है, क्योंकि वैश्विक रूप से अर्थव्यवस्थाएं खुल रही हैं, और बिक्री में ज्यादा गिरावट की आशंका नहीं है।'

यदि सरकार वैश्विक रूझों के अनुरूप घरेलू प्राकृतिक गैस बिक्री कीमतें बढ़ाती है तो इसका मार्जिन वृद्धि के तौर पर भी असर दिखेगा।

ऊंची वैश्विक तेल कीमतों से रिफाइनिंग व्यवसाय में राजस्व को भी मजबूती मिलेगी। यह व्यवसाय हाल में तेल-रसायन (ओ2सी) व्यवसाय के लिए पुनर्गठित हुआ है। डोले का मानना है, 'ओ2सी व्यवसाय में, लागत का बड़ा हिस्सा कच्चे माल से जुड़ा है, जो मुख्य रूप से कच्चा तेल है। इस हिसाब से आरआईएल का राजस्व अच्छा रहना चाहिए।' आरआईएल के मुताबिक, ओ2सी कारोबार का राजस्व 29.1 फीसदी घटकर 3,20,008 करोड़ रुपये रह गया, जो कम वॉल्यूम व विभिन्न उत्पादों की कीमत कम मिलने के कारण हुआ।

Tender Notice

Online tenders are invited by the Principal, Ramkrishna Mahato Government Engineering College, Purulia -723103 from private Entrepreneurs /Agencies for supply of Mess workers for Boy's and Girl's hostel and also to provide man power for gardening and sweeping of the college campus through electronic tendering (e-tendering) process. The details are available in website <https://wbidders.gov.in> from 04/06/2021. Last date of submission of tender is 18/06/2021.

बालर लारी एण्ड क. लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम)
 एल्यूमीनियम & न्यूट्रिशन
 पंजीकृत कार्यालय : ग्राम, बरपाली, इलाहाबाद, केसमाल राजगंज, जिला - सुन्दरगढ़, ओडिशा - 770017

सूचना
 एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन बाध्य एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 29 के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडर्ड्स लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने एवं अनुमोदित करने हेतु कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में **शनिवार, 12 जून, 2021** को कंपनी के निदेशक मंडल की सभा का आयोजन किया जाएगा।

मंडल के आवेगानुसार
 दिनांक : 03.06.2021 ए. ए. खट्टा
 स्थान : बरपाली कंपनी सचिव

केन्द्रीय विद्यालय बोलपुर KENDRIYA VIDYALAYA BOLPUR

(under Ministry of HRD, Govt. of India)
 C/o - Bitti Sadan Prantik Township, Post - Santiniketan Dist - Birbhum, Pin - 731235, West-Bengal
 E-mail : kvbolpur2010@gmail.com, Website : bolpur.kvs.ac.in

वर्ष 2021-22 के लिए फर्म रजिस्ट्रेशन
 वित्त वर्ष 2021-22 केन्द्रीय विद्यालय बोलपुर रजिस्टर्ड फर्म/कंपनियों की सूची तैयार कर रहा है। विज्ञापन जारी होने के 10 दिन के अन्दर यह किया जाना है।
 ज्यादा जानकारी/विस्तृत विवरण हेतु विद्यालय के वेबसाइट <http://bolpur.kvs.ac.in> पर देखी जा सकती है।

निविदा सूचना

एअर इंडिया इंडीनियरिंग सर्विसेज लि. 3 वर्षों के लिये निम्नलिखित निविदा को आमंत्रित कर रही है.

निविदा संदर्भ	निविदा विवरण	लगभग आवश्यकता	अंतिम तिथि	प्री-बिड मीटिंग की तारीख
एआईईएसएल/ए/बि/एनईसी-ए/एनईसी/2021 दिनांक 03/06/2021	मुंबई में हाउसकीपिंग सेवाएं	हाउसकीपिंग सेवाएं	15/6/2021	08/6/2021

निविदा दस्तावेजों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए, हमारी वेबसाइट देखें: <http://www.airindia.in>

Re-Tender Notice Solapur City Development Corporation Limited

E-Tender Notice No : 12 Date : 02.06.2021
 Solapur City Development Corporation Limited (SCDCL) is invite e-tender for Appointment of IT Consultant for implementation of ICC Project Under Smart Cities Mission, in Solapur.

Name of Work	EMD Amount	Completion Period	Cost of Blank Tender Form
Appointment of IT Consultant for implementation of ICC Project Under Smart Cities Mission,	Rs. 1,00,000/-	09 Month	Rs. 5900/- (Rupees Five Thousand Nine Hundred only including 18% GST)

Re-Tender release date is 10:00 am on 03.06.2021
Online Pre Bid meeting is at 02.00 PM of 07.06.2021 through Google Meet/Zoom App at Solapur City Development Corporation Limited, Saat Rasta, Solapur
 Bid Submission date extend up to 3:00 PM of 10.06.2021
 The Technical Bid Opening date is 4.00 PM of 11.06.2021
 The tender and Various Corrigendum documents from time to time can also be viewed and downloaded from www.mahatenders.gov.in
 The bidders should quote exclusive of GST
 All rights of acceptance and rejection of tender is reserved by SCDCL.

Sd/-
Chief Executive Officer Solapur City Development Corporation Limited
 Tender ID:- 2021_SMC_692423_1

Re-Tender Notice Solapur City Development Corporation Limited

E-Tender Notice No : 12 Date : 02.06.2021
 Solapur City Development Corporation Limited (SCDCL) is invite e-tender for Appointment of IT Consultant for implementation of ICC Project Under Smart Cities Mission, in Solapur.

Name of Work	EMD Amount	Completion Period	Cost of Blank Tender Form
Appointment of IT Consultant for implementation of ICC Project Under Smart Cities Mission,	Rs. 1,00,000/-	09 Month	Rs. 5900/- (Rupees Five Thousand Nine Hundred only including 18% GST)

Re-Tender release date is 10:00 am on 03.06.2021
Online Pre Bid meeting is at 02.00 PM of 07.06.2021 through Google Meet/Zoom App at Solapur City Development Corporation Limited, Saat Rasta, Solapur
 Bid Submission date extend up to 3:00 PM of 10.06.2021
 The Technical Bid Opening date is 4.00 PM of 11.06.2021
 The tender and Various Corrigendum documents from time to time can also be viewed and downloaded from www.mahatenders.gov.in
 The bidders should quote exclusive of GST
 All rights of acceptance and rejection of tender is reserved by SCDCL.

Sd/-
Chief Executive Officer Solapur City Development Corporation Limited
 Tender ID:- 2021_SMC_692423_1

मुकेश अंबानी ने नहीं लिया वेतन

देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी ने 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष में अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से कोई वेतन नहीं लिया। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव के चलते व्यापार और अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने के कारण स्वेच्छा से अपना पारिश्रमिक छोड़ दिया।

वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि 2020-21 के लिए अंबानी का पारिश्रमिक शून्य था। उन्होंने इससे पिछले वित्त वर्ष में कंपनी से 15 करोड़ रुपये का वेतन प्राप्त किया था। अंबानी के चचेरे भाई निखिल और हिताल मेसवानी का पारिश्रमिक 24 करोड़ रुपये पर बकरावर रहा, लेकिन इस बार इसमें 17.28 करोड़ रुपये का कमीशन शामिल है। कार्यकारी निदेशक पीएमएस प्रसाद और पवन कुमार कपिल के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी हुई। प्रसाद को 2020-21 में 11.99 करोड़ रुपये मिले। यह आंकड़ा इससे पिछले वर्ष में 11.15 करोड़ रुपये था।

अंबानी की पत्नी नीता, जो कंपनी के बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक हैं, को हर बैठक के लिए 8 लाख रुपये और 1.65 करोड़ रुपये का कमीशन मिला। सभी स्वतंत्र निदेशकों को 1.65 करोड़ रुपये का कमीशन और 36 लाख रुपये तक बैठक शुल्क मिला।

मणिपाल हॉस्पिटल्स का हुआ विक्रम हॉस्पिटल

समरीन अहमद
 बंगलूर, 3 जून

अरबपति कारोबारी रंजन पई द्वारा नियंत्रित अस्पताल शृंखला मणिपाल हॉस्पिटल्स ने बंगलूर के विक्रम अस्पताल के 100 फीसदी अधिग्रहण के लिए निजी इक्विटी फर्म मॉल्टिवैल्स के साथ एक निश्चित समझौता किया है। यह शहर में उसका दसवां अस्पताल होगा।

सूत्रों के अनुसार, इस सौदे का आकार 350 करोड़ रुपये है। अधिग्रहण के बाद विक्रम हॉस्पिटल को मणिपाल हॉस्पिटल्स के रूप में नए तिर से ब्रांडिंग की जाएगी।

इस साल मणिपाल हॉस्पिटल्स का यह दूसरा अधिग्रहण है। इसी साल अप्रैल में अस्पताल शृंखला ने 2,100 करोड़ रुपये के एक सौदे के तहत कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल्स के भारतीय कारोबार का अधिग्रहण किया था। कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल्स के भारतीय कारोबार के अधिग्रहण के साथ ही मणिपाल हॉस्पिटल्स अपोलो हॉस्पिटल्स के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी अस्पताल शृंखला बन गई थी।

मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप (एमईएमजी) के चेयरमैन पई ने कहा, 'दो नए अस्पताल फिलहाल निर्माणाधीन हैं और अगले 24 महीनों में उनका निर्माण पूरा होने पर हमारे नेटवर्क में 2,300 बिस्तरों के साथ 12 अस्पताल होंगे जो सभी के लिए (बंगलूर में) आसान पहुंच और व्यापक देखभाल प्रदान करने के लिए सबसे अच्छी जगह होगी।'

मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज के एमडी एवं सीओ दिलीप जोस ने कहा, 'विक्रम हॉस्पिटल का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और यह बंगलूर में हमारे नेटवर्क के लिए बिल्कुल अनुकूल है।' जोस ने इससे पहले कहा था कि अस्पताल शृंखला अपना दायरा बढ़ाने के लिए पूर्वी और पश्चिमी भारत में भी संभावनाएं तलाश रही है।

मणिपाल हॉस्पिटल्स ने अपनी अधिग्रहण योजनाओं के लिए अप्रैल में सरकार द्वारा प्रायोजित नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड से 2,100 करोड़ रुपये जुटाए थे।



■ कंपनी ने 350 करोड़ रुपये में किया सौदा
 ■ कोलंबिया एशिया के भारतीय कारोबार के अधिग्रहण के बाद यह इस साल का दूसरा सौदा है

कार्बन उत्सर्जन घटाने की तैयारी में एचडीएफसी बैंक

एजेंसियां
 मुंबई, 3 जून

इस महीने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से पहले निजी क्षेत्र के ऋणदाता एचडीएफसी बैंक ने गुरुवार को वर्ष 2031-32 तक कार्बन-न्यूट्रल बनने की योजना की घोषणा की है। अपनी इस पहल के तहत बैंक अपना उत्सर्जन, ऊर्जा और पानी की खपत घटाने की संभावना तलाश रहा है। वह अपने परिचालन में लगातार अक्षय ऊर्जा इस्तेमाल को शामिल करने और इसका दायरा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। एचडीएफसी बैंक में समूह प्रमुख (सीएसआर, बिजनेस फाइनेंस एंड स्ट्रैटेजी, एडमिनिस्ट्रेशन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर) आशिमा भट ने पत्रकारों को बताया, 'चूंकि देश में सबसे बड़े बैंकों में से एक होने की वजह से हमारी जिम्मेदारी न सिर्फ सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट, बल्कि पर्यावरण के प्रति सजग कॉर्पोरेट की भी है। आज हम एक बैंक के तौर पर यह वादा करना चाहेंगे कि वित्त वर्ष 2032-32 तक हम कार्बन-अनुकूल बन जाएंगे।'

आशिमा ने कहा कि इस कमी लाने के लिए सभी संगठनों को अपने मौजूदा बिजनेस

टीसीएस ने 2030 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा

बीएस संवाददाता
 मुंबई, 3 जून

आईटी सेवा दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने स्कोप 1 और स्कोप 2 में वर्ष 2025 तक अपने एक्सॉल्यूट ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 70 प्रतिशत तक (2016 आधार वर्ष के मुकाबले) घटाने और वर्ष 2030 तक शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की अपनी योजना की घोषणा की है।

अपनी ताजा प्रकाशित इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट 2020-21 में कंपनी ने इस लक्ष्य का उद्घोषण किया है। 2008 के मुकाबले 61.6 प्रतिशत तक घट गई थी।

टीसीएस के सीओओ एवं कार्यकारी निदेशक एन जी सुब्रमण्यम ने कहा, 'हमारा शुद्ध शून्य लक्ष्य पर्यावरण प्रबंधन की दिशा में हमारी नई प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उत्सर्जन नियंत्रित करने और वैश्विक तामाना में कमी लाने के लिए सभी संगठनों को अपने मौजूदा बिजनेस

मॉडलों में बदलाव लाना होगा। हम न सिर्फ स्वयं के लिए डिजिटल नवाचार के साथ अपने उद्देश्य-केंद्रित वैश्विक नजरिये की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि मजबूत एवं पर्यावरण अनुकूल भविष्य के लिए समाधानों की दिशा में ग्राहकों, समाज और सरकारों के साथ भी भागीदारी कर रहे हैं।'

अपनी कार्बन उपस्थिति घटाने के लिए टीसीएस की रणनीति का मुख्य उद्देश्य कंपनी के रियल एस्टेट पोर्टफोलियो के लिए ज्यादा ग्रीन बिल्डिंग्स शामिल कर ऊर्जा दक्षता में सुधार लाना, आईटी प्रणाली में विद्युत इस्तेमाल में कमी लाना और टीसीएस की क्लेवर एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाना है। सिक्कर बॉर्डरलेस वर्कस्पेस परिसरों में विद्युत इस्तेमाल को मद्दत से रिमोट वर्किंग पर जोर दिए जाने की वजह से वित्त वर्ष 2021 में टीसीएस की कार्बन उत्सर्जन में 2008 के मुकाबले 61.6 प्रतिशत तक घट गई थी।

टीसीएस के सीओओ एवं कार्यकारी निदेशक एन जी सुब्रमण्यम ने कहा, 'हमारा शुद्ध शून्य लक्ष्य पर्यावरण प्रबंधन की दिशा में हमारी नई प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उत्सर्जन नियंत्रित करने और वैश्विक तामाना में कमी लाने के लिए सभी संगठनों को अपने मौजूदा बिजनेस

अब सीधे कंपनी से खरीदें मर्सिडीज

शैली सेठ मोहिले
 मुंबई, 3 जून

ନ ଶିବର ଅନୁଷ୍ଠାନ
 ଲକ୍ଷ୍ମି । ଏଥିରେ ୨୧ ଯୁକ୍ତି
 ପ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ଏହି
 ମରେ ରାଜରକେଲା
 ରାପଟି ଗଣନ ପଞ୍ଚା,
 ଶାନ୍ତି, ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବୃତ୍ତର,



ପ୍ରବନ୍ଧ

ଏହା ସହାୟକ
 ବାରି ପିପିଏଲର
 ଆପେକ୍ଷାର୍ଥ ମୁଖ୍ୟ
 ମିଶ୍ର କଶାଳକ୍ଷି ।
 ବି, ପାରାଦୀପରେ
 ଥିବା ଏହିସଂସ୍ଥା
 ସହରାଞ୍ଚଳ, ବଞ୍ଚି
 ରାଜା ମହାମାରୀକୁ
 ସହର ସାନିଟାଇଜ୍
 ଧାରଣକୁ ସଚେତନ
 ଶାନ୍ତି ବଞ୍ଚନ କରିବା
 ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷରରେ
 କାଶି ଚୁମିକା
 ନାହିଁ ।

ବାବୁଲି ଦାସ, ଗଙ୍ଗାଧର କେନା,
 ବସନ୍ତ ମହାରଣା, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବି,
 ସୁକାନ୍ତ ସାହୁ, ସପନ ପଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ
 ଥିଲେ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
 ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ରାଉତରାୟ, ସୁମନ୍ତ ଦାସ,
 ଲିଟୁନ ଖାନ୍, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ
 ସଫଳ କରାଇଥିଲେ ।
 ସମାଜସେବୀ ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ
 ସଂକୀର୍ତ୍ତ ମହାପାତ୍ର କରୋନା

ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ୨ ମାସ
 ହେବ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଂଚଳର କରୋନା
 ଆକ୍ରାନ୍ତକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ଶହ
 ମିଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ
 ପ୍ରକୃତ କରୋନା ଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ
 ରାଜରକେଲା ବିଧାୟକ ସାରଦା
 ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ସମ୍ମାନିତ
 କରିଥିଲେ ।

SURAJ PRODUCTS LIMITED
 CIN-L26942OR1991PLC002865
 Regd. Off :Vill: Barpali, P.O.: Kesramal
 Rajgangpur, Dist. Sundargarh, Odisha-770017

Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, the 12th day of June, 2021 at the Registered Office of the Company to consider and approve the Standalone Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2021.

Date: 03.05.2021
 Place: Barpali

By order of the Board
 A.N.Khatua
 Company Secretary

-25, Cell:09437042623, E-mail:utkalmailnews@gmail.com (News & Features),
 @gmail.com (Advt.) **Managing Editor:** Bibekananda Das, **Editor:** Pitabasa Mishra

